

Inspection Report for Flood Damage work

Site:-

Loc of PIUS:- Ram Panam (EE RWD works division-udakisthanganj)

Loc of Block:- puraini

Loc of Road:- Durgapur panchayat Panam via Durgapur govt chhoti bahona.

1 Road

Damage Location/Chainage:- 5rd 54th KM

Damage Length:- 0.142 KM /

Nature of damage:- Road crust, culvert approach, semic, shoulder

Details of Restoration Works:- Ram sand bags, bamboo pile, brick bats

Material being used in Restoration works:-

Equipment/Tools being used in Restoration works:-

Procedure taken up in Restoration works:-

Restored Length:- 0.142 KM

2 Bridge

Damage Location/Chainage:-

Damage Length:-

Nature of damage:-

Details of Restoration Works:-

Material being used in Restoration works:-

Equipment/Tools being used in Restoration works:-

Procedure taken up in Restoration works:-

Restored Length:-

[Signature]
23/11/24
JE

[Signature]
22/11/24
AE

[Signature]
23/11/24
EE

check and found satisfactory.

[Signature]
25/11/24

Signature
(Name of inspector)



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

BIHAR RURAL ROADS PROJECT

Bihar Rural Development Agency (BRRDA)

Head :- F.D.R.

YEAR (2021-22)

STATE
DISTRICT
BLOCK
DIVISION

BIHAR
MADHEPURA
PURAINI
UDAKISHANGANJ

**DETAILED ESTIMAE FOR TEMPORARY RESTORATION OF
ROAD FROM DURGA PMGSY PATH PAINA VIA
DURGAPUR GOUH CHHOTI BADHONA**

Flood affected Length of Road	=	0.142 Km
TOTAL COST OF PAVEMENT	Rs	20,25,279.55
TOTAL PROJECT COST	Rs	20,25,279.55

Submitted By:
Executive Engineer
RWD (W) Division, Udakishanganj

Prepared By:
Executive Engineer
RWD (W) Division, Udakishanganj

प्रतिवेदन

पथ का नाम :- Durgam PMGSY Path Painsia Durgapur
Ghat chhoti Badhona.

प्रखंड :- Puraini

जिला :- Madhepura

पथ की कुल लंबाई :- 4.00 Km.

प्रस्तुत प्राकलन मो०-..... लाख का वर्ष 2021 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों को मानक अवस्था में लाने हेतु विभागीय पत्रांक-मु०अ०-4(मु०) विविध (कार्य)-23-291/2019 4275 पटना, दिनांक-22.10.2021 एवं पत्रांक- मु०अ०-4(मु०) विविध (कार्य) 23-291/2019 4589 पटना, दिनांक-13.11.2021 के द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन कर ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज के अधीन स्वीकृत प्राकलन के दर पर तैयार की गई है।

Shree
22/11/2021
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,

AK
22/11/2021
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल,
पुरनी

(Signature)
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज।

ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, सरकार

पत्रांक - मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 -1937

पटना, दिनांक 07/07/2021

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल (भा0प्र0से0)
सचिव

सेवा में,


सभी कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,

विषय- बाढ़ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों/पुलियों को यातायात लायक (Motorable) करने के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेश दिया जाता है कि प्रमंडल अन्तर्गत सभी अभियंता बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का शत प्रतिशत निरीक्षण करेंगे। पथों/पुलियों के क्षतिग्रस्त भाग से पानी उतरते ही उसे यातायात लायक बनाने की कार्रवाई एवं Motorable किये जाने से पहले तथा Motorable कार्य के बाद का Real time, Geo tagged photographs को MIS पर तत्क्षण अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इन कार्यों को कराने हेतु कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। कार्य न कराने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की बाध्यता होगी।

विश्वासभाजन


(पंकज कुमार पाल)

सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 -1937

पटना, दिनांक 07/7/2021

प्रतिलिपि:-सभी अधीक्षण अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे लगातार अनुश्रवण एवं निरीक्षण करते हुए क्षतिग्रस्त भाग को अतिशीघ्र यातायात लायक बनवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सचिव

ज्ञापांक-मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 -1937

पटना, दिनांक 07/7/2021

प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं लगातार अनुश्रवण करने हेतु प्रेषित।

सचिव

SUMMARY OF COST ESTIMATE FOR THE PROJECT

NAME OF ROAD :- DETAILED ESTIMAE FOR TEMPORARY
RESTORATION OF ROAD FROM DURGA
PMGSY PATH PAINA VIA DURGAPUR

DIVISION :- UDAKISHANGANJ


BLOCK :- PURAINI

Flood Affected Length of Road :- 0.142 Km

Sr. No.	Description	Amount (In Rs.)
1	Total Cost of Restoration=	17,61,712.31
2	Add:-Labour Cess @1% amt. =	17,617.12
3	Add:-GST@12% on amt. =	2,11,405.48
4	Add:-S.F.@ 10% on Material (Brick Bats) =	34,544.64
TOTAL RESTORATION COST OF THE PROJECT IN LACS		20,25,279.55


Junior Engineer

RWD (W) Division, Udakishanganj


Assistant Engineer

RWD (W) Division, Udakishanganj


Executive Engineer

RWD (W) Division, Udakishanganj

TS no:-

dated 20/04/2022

पत्रांक मु० अ०-५(सू०) विविध (कार्य) 23-29/2019-
4849 दिनांक - 2/12/2021

Technically sanctioned for Rs 2025279.00
(Rs Twenty lacs. twenty five thousand two
hundred seventy nine) only.

Sd/-
20/04/2022

Estimating Officer
Rural Works Department
Work Circle, Madhepura

11/20/04/22

Superintendent
Rural Works Department
Works Circle, Madhepura

Calculation of Seigniorage Fees

DETAILED ESTIMAE FOR TEMPORARY RESTORATION OF ROAD FROM DURGA PMGSY PATH

NAME OF ROAD :- PAINA VIA DURGAPUR GOUH CHHOTI BADHONA
BLOCK :- PURAINI

S.No	SOR NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
		OF ITEMS				
1/1	12.3	Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification.				
		Sand	0.00	Cum	141.85	0.00
2/2	A/R	Providing & laying Brick Bat....				
		Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.				
		Brick Bats	189.04	Cum	1032.00	195085.41
3/7	5.7.40.1	Labour filling empty cement bags with loocal sand, stitching the bags and placing including supply of sutli and EC bag etc. all complete as per approved desing, specification and direction of E/I				
		Sand	1060.00	Cum	141.85	150361.00
4/9	5.7.40.2	Labour for filling empty cement bags with loocal sand, stitching the bags and placing in Nylon crate of size (1 m x 1 m x 1 m) with lead of 150 M including supply of sutli etc. at site in dry portion all complete as per approved design, specification and direction of E/I				
		Sand	0.00	Cum	141.85	0.00
5/10	401	Construction of granular sub-base by providing well graded material, spreading in uniform layers with tractor mounted grader arrangement on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with smooth wheel roller to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401.				
		For Grading I Material (with Coarse Sand Screening)				
		Unit = Cum				
		Taking output = 300 cum				
		Coarse graded granular sub-base material as per Table 400.2				
		53 mm to 9.5mm @ 50 percent	180.00	Cum	516.42	92955.60
		9.5 mm to 2.36 mm @ 20 percent	72.00	Cum	411.33	29615.76
		2.36 mm below @ 30 percent (coarse Sand Screening)	108.00	Cum	185.94	20081.52
		Cost for 300 cum = a				142652.88
		Rate psr Cum = (a)/300		Cum		475.51
			0.00	Cum	475.51	0.00
		GSB Gr-I				0.00
					TOTAL	345446.41
		Seigniorage Fees @10% of Basic Amount			Say	34544.64

Sulves
22/11/21

AK
22/11/2021
AE

20/11/21
EE

Schedule of Quantity

NAME OF ROAD :- DETAILED ESTIMAE FOR TEMPRORY RESTORATION OF ROAD
FROM DURGA PMGSY PATH PAINA VIA DURGAPUR GOUH

BLOCK :-

PURAINI

S.No	SOR NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	12.3	Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification.	0.00	Cum	582.71	0.00
2	A/R	Providing & laying Brick Bat....				
		Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.	189.04	Cum	1922.87	363492.13
3	5.7.7	Labour for cutting 62mm to 75 mm dia bamboo piles to size and making shoes and driving etc. complete job as per specification and direction of E/I	2849.00	m	45.86	130669.15
4	5.7.8	Labour for fitting and fixing Split bamboo woven chachari in position with 20 swg G.I wire or 75 mm to 100 mm long nails alternatively including cost of G.I. wire or nails complete job as per specification and direction of E/I	0.00	sqm	78.20	0.00
5	5.7.9	Labour for fitting and fixing 75 mm dia bamboo runners in position at every vertical pole with 150 mm long nails or 38 swg G.I. wire including cost of G.I wire or nails complete job as per specification and direction of E/I	622.50	m	5.31	3303.59
6		Supply of Bamboo at site.	579.00	nos.	188.39	109075.62
7	5.7.40.1	Labour filling empty cement bags with loocal sand, stitching the bags and placing including supply of sutli and EC bag etc. all complete as per approved desing, specification and direction of E/I	31176.00	nos.	37.05	1155171.81
8	401	Construction of granular sub-base by providing well graded material, spreading in uniform layers with tractor mounted grader arrangement on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with smooth wheel roller to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401.	0.00	Cum	3128.33	0.00
9	9.3	Providing and Laying Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Roww(1000mm Dia).	0.00	m	4046.57	0.00
		Total			Rs.	1761712.31

Shubee
22/11/24
JE

AE
22/11/2024
AE

EE
22/11/24
EE

Analysis of Rate							
SI No.	SOR No.	Description	Unit	Qty	Rate(Rs.)	Amount (Rs.)	
Carriage of materials (By Tractor)							
1	1.4	Cost of Haulage excluding Loading & Unloading					
	RCD	Haulage of materials by Tractor excluding cost of loading, unloading and stacking.					
		Unit = t.km					
		Taking output 3.60 Tonne load and lead 10 km = 36.0 t.km					
		Case-I : Surfaced Road					
		Speed with load: 15 km per hour					
		Speed while returning empty: 25 km per hour					
		a) Machinery					
		Tractor 3.6 t capacity	hour	0.667	591.40		394.46
		Time taken for onwards haulage with load	hour	0.400	591.40		236.56
		Time taken for empty return trip					631.02
		Total					75.72
		Add OH@12%					706.75
							19.63
		Rate per Ton.km					
		Case-II: Unsurfaced Gravel Road					
		Speed with load: 12 km/hour					
		Speed for empty return trip: 20 km/hour					
		a) Machinery					
		Tractor 3.6 t capacity	hour	0.833	591.40		492.64
		Time taken for onwards haulage with load	hour	0.500	591.40		295.70
		Time taken for empty return trip					788.34
		Total					94.60
		Add OH@12%					882.94
							24.53
		Rate per Ton.km					
		Case-III: Katcha Track and Track in River Bed / Nallah Bed and Choe Bed					
		Speed with load : 10 km / hour					
		Speed with returning empty : 15 km / hour					
		(a) Machinery					
		Tipper 10 tonnes or 5.5 cum capacity	hour	1.000	591.40		591.40
		Time taken for empty return trip	hour	0.667	591.40		394.46
		Total					985.86
		Add OH@12%					116.30
		Cost for 36.0 t.km =a+b					1,104.17
		Rate per Ton.km					30.67
2	6.6.1.	Labour for laying Brick bats /dry graded jhama khoa or stone filter under Brick Pitching or Boulder pitching in slope or apron including light ramming etc. all complete job as per approved design, specification and direction of E/I					
	WRD	Unit = Per Cum					
		Taking output= 2.832 Cum					
		a) Labour					
		Mazdoor (Unskilled)	Nos	3.00	287.00		861.00
		b) Overheads @ 12% on (a)					103.32
		Rate for 2.832 Cum					964.32
		Rate Per Cum					340.51
3	1.1	Loading and Unloading of Stone Boulder, Stone aggregate ,Sand, Kankar,Moorum , Brick Bats and Sand etc.					
	RCD	Unit = Per Cum					
		Taking output= 2.25 Cum					
		Time required for					
		i) Positioning of tipper at unloading point	day	1 Min			
		ii) Loading by front end loader 1 cum bucket capacity @ 25 cum per hour	day	5Min			
		iii) Maneuvering, reversing, dumping and turning for return		0Min			
		iv) Waiting time, unforeseen contingencies etc	hour	0Min			
		Total		6Min			
		a) Labour					
		Mate	day	0.03	305.00		9.15
		Mazdoor for Loading and unloading	day	0.72	287.00		206.64
		b) Machinery					
		Tractor 3.6 t capacity	Hour	0.10	591.40		59.14
		Front end loader 1 cum bucket capacity @ 25 cum per hour	Hour	0.08	1,403.00		116.45
							391.38
		Add OH@12%					46.97
							438.34
		Rate per Cum=(a+b+c)/2.25					194.82
		Notes:- Unloading will be done Manually.					

Sl No.	SOR No.	Description	Unit	Qty	Rate(Rs.)	Amount (Rs.)
4	9.3	1100 Laying Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row . Providing and Laying Reinforced cement concrete pipe NP3 for culverts on first class bedding of granular material in single row including fixing collar with cement mortar 1:2 but excluding excavation, protection works, backfilling, concrete and masonry works in head walls and parapets .				
		1000 mm dia Hume Pipe				
		Unit=m				
		Taking Output=7.5 m (3 pipes of 2.5 m length, each)				
		a Material	cum	0.04	2,950.27	118.01
		Sand at site	ton	0.03	5,716.83	171.50
		Cement at site	m	7.50	3,481.28	26,109.60
		RCC pipe NP3 pipe including collar at site				
		b Labour	day	0.09	305.00	27.45
		Mate	day	0.25	388.00	97.00
		Mason (1 class)	day	2.00	287.00	574.00
		Mazdoor(Unskilled)				27,097.57
		Add OH@12%				3,251.71
		Cost for 7.50 m =				30,349.27
		Rate per M=				4,046.57
5		(Providing and laying of brick bats obtained from chimney with machnical means with all spreading grading to required slope and compacted at OMC to achieve required density with all completed as per direction of E/I)				
		Taking out put=100 cum				
		a) Labour	day	1.00	322.27	322.27
		Cost of Labour for Pitching and Light Ramming as per WRD SOR 6.6.1 (with OH)				
		b) Materials	Cum	1	1032.00	1032.00
		Bricks Bats -Basic Rate Taken From RCD S.O.R. Schedule-M:11-5(ii) dt.-25.02.2021				
		Overheads @12%on (b)				123.84
		Add:Carriage Charge for Brick bats				444.76
		Total Cost				1,922.87
		NET TOTAL COST PER CUM				1,922.87
		SAY Rs				1,922.87
6	5.7.7	Labour for cutting 62 mm to 75 mm dia sal bamboo piles to size and making shoes and driving etc.complete job as per specification and direction of E/I.				
	WRD	Unit :- Per M				
		Taking Out put:- 30.50 Mtr (Assuming 20 nos. pile sunk 1.525 mtr deep) Total depth sunk 30.50 meter				
		(a) Labour				
		Carpenter Gr II	Nos	1.00	388.00	388.00
		Unskilled mazdoor for piling	Nos	3.00	287.00	861.00
		Overheads @ 12%				1,249.00
						1,49.88
						1,398.88
		Rate Per M				45.86
7	5.7.8	Providing fitting and fixing split bamboo woven chachari in position with 20 swg G.I. wire or 75 mm to 100 mm long nails alternatively including cost of G.I. wire 3.15 mm dia or nails complete job as per specification and direction of E / I.				
		Unit :- Per M2				
		Taking Out put:- 9.30 Sqm (Assuming strip of 3.05x3.05 = 9.30 sqm)				
		a Material				
		1 75 mm to 100mm long nail	kg	0.25	55.84	13.96
		2 Bamboo -75mm dia to 62 mm dia Bamboo @75mm = 3050/75 = 40.67 Say=41Nosx3.05=125.05M Add for Lower Binder of chachari 10x3.75=30.50M Runner @150mmc/c=7x3.05=21.35M Total length of Bamboo=176.9M Total No of Bamboo=176.9/6=30No	No	30	141.50	4245
		b Labour				
		Carpenter Gr II	Nos	1.00	345.00	345.00
		Unskilled mazdoor for piling	Nos	1.00	287.00	287.00

Sl No.	SOR No.	Description	Unit	Qty	Rate(Rs.)	Amount (Rs.)
		Overheads @ 12% on labour charge (345.00+287.00)				75.84
						4,966.80
		Rate Per M2				534.06
8	5.7.8	Labour for fitting and fixing split bamboo n woven chachari in position with 20 swg G.I. wire or 75 mm to 100 mm long nails alternatively including cost of G.I. wire 3.15 mm dia or nails complete job as per specification and direction of E / I.				
	WRD	Unit :- Per M2				
		Taking Out put:- 9.30 Sqm				
		(Assuming strip of 3.05x3.05 = 9.30 sqm)				
		(a) Material				
		G.I. wire 3.15 mm dia	Kg	0.250	69.30	17.33
		(b) Labour				
		Carpenter Gr II	Nos	1.00	345.00	345.00
		Unskilled mazdoor for pilling	Nos	1.00	287.00	287.00
						649.33
		Overheads @ 12%				77.92
						727.24
						727.24
		Rate Per M2				78.20
9	5.7.9	Labour for fitting and fixing 62mm to 75 mm dia bamboo runners in position at every vertical pile with 150 mm long nails or 38 swg G.I. wire including cost of G.I. wire or nails complete job as per specification and direction of E / I.				
	WRD	Unit :- Per M				
		Taking Out put:- 30.50 Mtr				
		(a) Materials				
		Cost of 150 mm long nails	Kg	0.50	55.84	27.92
		(b) Labour				
		Carpenter Gr II	Nos	0.13	345.00	44.85
		Unskilled mazdoor for pilling	Nos	0.25	287.00	71.75
						144.52
		Overheads @ 12%				17.34
						161.86
						161.86
		Rate Per M				5.31
10		Supplying bamboo 75 mm dia 6 m to 8 m long at..... complete job as per specification and direction of E / I.				
		Taking Out put:- 115 nos				
		(a) Material				
		Supplying bamboo 75 mm dia 6 m to 8 m long (Cost of bamboo)	Nos	115	162.70	18,710.50
		Add: Carriage Charge for Bamboo				292.22
		Add Labour for laying Bamboo				340.51
						19,343.23
		Overheads @ 12%				2,321.19
						21,664.42
						21,664.42
		Rate Per each Bamboo				188.39
11	5.7.40.1	Labour for filling empty cement bags with local sand, stitching the bags and placing including supply of sutli etc. all complete as per approved design, specifications and direction of E / I				
	WRD	Unit :- Per % nos				
		Taking Out put:- 100 nos				
	(a)	Supplying of Sand bags (Cost of sand and Empty cement bag)	Nos	100	8.46	846.00
		Carraige cost for Local sand (100 no. of Bags=100x0.034m3	cum	3.4	299.25	1017.45
					Total	1863.45
	(b)	For filling & stitching & stacking				
		(a) Unskilled mazdoor for filling sand into bags and sewing	Nos	2	287	574.00
		(b) Sutali	Kg	0.5	19.75	9.88
					Total	583.88
	(c)	Labour rate for Carring & Placing to work site of E.C.Bags				
		(a) Unskilled mazdoor for carring filled bags and placing to work site	Nos	3	287	861.00
		Total (A+B+C)=				3308.33

Sl No.	SOR No.	Description	Unit	Qty	Rate(Rs.)	Amount (Rs.)
		Add overhead chrgae @12%				397.00
						3705.32
		Total Net Rs.				3705.32
		Rate per %				37.05
		Sand Each Bag			Say	Rs 37.05
12	5.7.40.2 WRD SOR Page 159	Labour for filling empty cement bags with loocal sand, stitching the bags and placing in Nylon crate of size (1 m x 1 m x 1 m) with lead of 150 M including supply of sutli etc. at site in dry portion all complete as per approved design, specification and direction of E/I				
		Unit :- Each N.C				
		Taking Out Put = 25 nos. filled E.C. Bags in each N/C				
		Cost of 25 nos of filled E.C.Bags (Vide item no. 5.7.40.1	Nos	25	37.05	926.33
		Rate each				926.33
13		Supply of Nylon Crate of size 1mx1mx1m			39.85	39.85
		Material				
	(a)	Nylon Crate				39.85
	(b)	Add Overhead charge @12%				4.78
		Total (a+b)				44.63
		Rate per nos.				44.63
14	11.2	Sand filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification				
		Unit = Per Cum				
	a	Material				
		Sand(assuming 20 percent voids)	cum	1.20	141.85	170.22
	b	Labour				
		Mate	day	0.01	305.00	3.05
		Mazdoor(Unskilled)	day	0.3	287.00	86.10
						259.37
		Add overhead chrgae @12%				31.1244
		total=				290.494
		Carraige cost for Local sand				290.49
		Rate per cum				292.22
						582.71

Sudhesh
22/11/24

AK
22/11/2024
AE

**अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा।**

पत्रांक 483/अनु 0

प्रेषक,

ई0 खलीकुज्जमा,
अधीक्षण अभियंता,

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
F.D.R, कोषांग,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

मधेपुरा, दिनांक 20/04/2022

विषय : ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज के अन्तर्गत शीर्ष **FDR** (वित्तीय वर्ष **2021-22**) योजना का बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथांशों का अस्थाई पुनर्स्थापन कार्य का प्राक्कलन के प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग : कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज का पत्रांक **722** अनु0, दिनांक **12.04.2022** एवं अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-मु0अ0-4(मु0)विविध(कार्य)23-291/2019-4849 पटना, दिनांक **07.12.2021**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज अन्तर्गत शीर्ष **FDR** (वित्तीय वर्ष **2021-22**) योजना का बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथांशों का अस्थाई पुनर्स्थापन कार्य का डी0पी0आर0 एक-एक प्रति में तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर प्रशासनिक अनुमोदन हेतु समर्पित की जाती है। जिसकी विवरणी निम्नवत है।

क्र0	प्रखंड	योजना का नाम	क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई (KM)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (Lakh)
1.	Alamnagar	L025-T-05 SONAMUKHI to MURAUT (VR12)	0.050	20.23962
2.	Alamnagar	L034-T-05 CHUBATUA GANGAPUR TO HARJORAGHT (VR20)	0.097	28.17067
3.	Alamnagar	L035-T-05 BHARSO TOLA TO KACHAHARI TOLA (VR21)	0.210	17.67956
4.	Alamnagar	Construction of road from Alamnagar SonaMukhi kakpsila with five years maintainance with 2 no. H.L bridge.	0.300	34.63060
5.	Alamnagar	Construction of road from Alamnagar fullaut road with five year maintenance with 2 nos. of H.L bridges.	0.072	6.02269
6.	Bihariganj	S01school Ke Nikat Se to Vairaw Patti	0.087	7.01604


P.T.O.

✓

क्र०	प्रखंड	योजना का नाम	क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई (KM)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (Lakh)
7.	Chausa	Construction of road from Dhaneshpur to morsanda with five years maintenance.	0.082	5.27416
8.	Chausa	Adhik Mandal Parbatta Bsabitti Ke Nikat To Sripurbasa PCC via Parbatta	0.146	5.74302
9.	Chausa	Khoparia Tola Lowalagan To baba bishuraut Sthan	0.045	6.24997
10.	Chausa	L036-T01 TO SHABA TOLA (VR11)	0.733	20.33275
11.	Gwalpara	Resna PMGSY Path To Kamalpur	0.136	7.15886
12.	Gwalpara	Baliya Basa REO Road To Amauja	0.060	11.57017
13.	Gwalpara	L036-Gwalpara to biswari (VR7)	0.181	9.01073
14.	Chausa	Construction of H.L Bridge Over Bariyari Dhar Sapni Fulaut Pandahi Path.	0.075	7.41311
15.	Puraini	Durga PMGSY Path Paina via Durgapur Goth Chhoti Badhona	0.142	20.25279
16.	Puraini	Kherho paschim Tola PMGSY Path To Dhaneshpur Via Goth Kherho	0.020	2.94972
17.	Udakishanganj	Construction of road from Kishanganj to Biriranpal with five years maintenance	0.110	8.49447
18.	Udakishanganj	L044-T04NH106UDA TO TINTANGA (VR31)	0.024	5.66868
19.	Udakishanganj	NH106 hareli to ramesh yadav ke ghar hotehu wevidyanand jha ke ghar ke aage Rampur khorha PWD road tak	0.099	5.06052
20.	Udakishanganj	Laxmipur - Majaura	0.483	11.09571

अनु०:-प्राक्कलन एक-एक प्रति में।

विश्वासभाजन,



अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल,
मधेपुरा।